



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 321]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 29, 1983/भाद्र 7, 1905

No. 321]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 29, 1983/BHADRA 7, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1983

सं. 254/83-सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 675(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 197/82-सीमा-शुल्क, तारीख 23 अगस्त, 1982 को अधिक्रान्त करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकोहित में ऐसा करना आवश्यक है, डाइ-आईसो-व्यूटिलीन, हेप्टीन और नोनीन को, जब उनका आक्सो-ऐल्कोहाल के विनिर्माण के लिए भारत में आयात किया जाए, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम-1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमा-शुल्क से छूट देती है ;

परन्तु यह तब जब कि आयातकर्ता, सीमा-शुल्क सहायक कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में और राशि के लिए बन्धपत्र निष्पादित करके स्वयं को इस बात के लिए आबद्ध करता है कि वह डाइ-आईसो-व्यूटिलीन, हेप्टीन और नोनीन की ऐसी मात्रा की बाबत जिसके बारे में सीमा-शुल्क सहायक कलक्टर के समाधानप्रद रूप में यह साबित नहीं होता है कि वह पूर्वोक्त प्रयोजन

के लिए प्रयोग की गई है, मांग किए जाने पर उतनी रकम का संदाय करेगा जो इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट को न दिए जाने की दशा में ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात किए जाने के समय पहले ही संवत्त शुल्क के बीच के अन्तर के बराबर हो ।

2. यह अधिसूचना 31 अगस्त, 1984 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी ।

[फा. सं. 355/76/83-सी. शू.-1]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 1983

No. 254/83-CUSTOMS

G.S.R. 675(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 197/82-Customs, dated the 23rd August, 1982, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest

so to do, hereby exempts Di-iso-butylene, Heptene and Nonene, when imported into India for the manufacture of Oxo-alcohols, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) :

Provided that the importer, by the execution of a bond in such form and for such sum as may be specified by the Assistant Collector of Customs, binds himself to pay, on demand, in respect of such quantity of Di-iso-butylene, Heptene and Nonene, as is not proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to have been used for the aforesaid purpose, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st day of August, 1984.

[F. No. 355/76/83-Cus.-I]

सं. 255/83-सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 676(अ).—केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1983 (1983 का 11) की धारा 45 की उप-धारा (4) के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 126/83-सीमा-शुल्क, तारीख 13 मई, 1983 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,—

(क) क्रम सं. 200 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा ;

(ख) क्रम सं. 227 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“228. सं. 254/83-सीमा-शुल्क, तारीख 29 अगस्त-1983” ।

[फा. सं. 355/76/83-सी. श. -1]

एन. शशिधरन, अवर सचिव

No. 255/83-CUSTOMS

G.S.R. 676(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 45 of the Finance Act, 1983 (11 of 1983), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 126/83-Customs, dated the 13th May, 1983, namely :—

In the Schedule to the said notification,—

- (a) Serial No. 200 and entry relating thereto shall be omitted;
- (b) after Serial No. 227 and the entry relating thereto, the following Serial No. and entry shall be inserted, namely :—

“228. No. 254/83-Customs, dated the 29th August, 1983.”

[F. No. 355/76/83-Cus.-I]

N. SASIDHARAN, Under Secy.